

9. बादल

इकाई - III

सोचो-बोलो




प्रश्न :

1. चित्र में क्या-क्या दिखायी दे रहे हैं?
2. लड़का क्या-क्या कर रहा है?

छात्रों के लिए सूचनाएँ :

1. पाठ पढ़ो। कठिन शब्द और वाक्य रेखांकित करो।
2. कठिन शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो।
3. कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूँढो।



एक लड़का था। उसका नाम भरत था। वह नयी-नयी बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाये हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी-बड़ी बूँदें पड़ने लगीं। भरत भागता हुआ घर पहुँचा। फिर भी वह भीग गया था।

भरत को देखते ही पिताजी बोले - 'जाओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो सरदी लग जाएगी।'

कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा - आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा, पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया।

भरत ने पूछा - 'पिताजी! वर्षा का पानी कहाँ से आता है?'

'बादलों से!' पिताजी ने बताया।



भरत ने फिर पूछा - 'लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है?'

पिताजी ने समझाते हुए कहा - 'बेटा, तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज़ गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है।'

भरत ने प्रश्न किया - 'पिताजी! भाप, बादल कैसे बन जाती है?'

पिताजी ने उत्तर दिया - 'भाप हलकी होती है। हलकी होने के कारण यह ऊपर उठती है। ऊपर होती है ठंड! ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्हीं-नन्हीं बूंदों का रूप ले लेती हैं। बादल ऐसी ही नन्हीं-नन्हीं बूंदों का समूह है।'

पिताजी भरत को रसोईघर में ले गये। वहाँ माँ चाय बना रही थीं। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुँह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले आये। कुछ देर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे।

भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ।





सुनो-बोलो

1. बारिश का पानी कहाँ-कहाँ जाता है और हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है?
2. बादल काले रंग में क्यों दिखायी देते हैं?
3. बादल से संबंधित मातृभाषा की कोई कविता, गाना या गीत सुनाओ।



पढ़ो

(अ) इन वाक्यों में जो अशुद्ध शब्द हैं, उन्हें पाठ में से ढूँढ़कर सही करो।

1. एक दिन भरत पाठसाला से घर आ रहा था।
2. कपड़े बदलते हुए सोचने लगा।
3. भरत ने प्रश्न कीया।
4. कुच धेर गिलास को वहीं पकड़े खड़े रहे।
5. पिताजी भरत को रसोईगर में ले गये।



लिखो

(अ) भरत क्यों भीग गया?

.....

(आ) भाप कैसे बनती है?

.....

(इ) भाप ऊपर क्यों उठती है?

.....

(ई) पिताजी भरत को रसोईघर में क्यों ले गये?

.....

(उ) किन-किन चीजों को गर्म किया जा सकता है?

.....





शब्द भंडार

(अ) पढ़कर बताओ कौन-सी चीज़ें रसोईघर में नहीं होनी चाहिए।

केतली, चम्मच, थाली, जूते, पेंसिल, गिलास, टी.वी., कपड़े, मिक्सर, पतंग, किताबें, गाड़ी।

रसोईघर में होनी चाहिए	रसोईघर में नहीं होनी चाहिए।
केतली	टी. वी.



भाषा की बात

एक दिन भरत खो गया, तो उसके पिताजी पुलिस थाने गये। वहाँ पुलिस वाले ने भरत के पिताजी से निम्न लिखित प्रश्न पूछे-

- तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है?
- उसकी ऊँचाई कितनी है?
- उसका रंग कैसा है?
- उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं?
- उसका चेहरा कैसा है?

किसी के बारे में बताने के लिए विशेषण शब्द हमारी मदद करते हैं।

देखो, विशेषणों की सहायता से भरत के बारे में बताना कितना आसान हो गया-

- मेरे बेटे की उम्र चौदह साल है।
- उसका रंग गोरा है।
- उसने हरे रंग की कमीज़ पहनी है।



- उसका चेहरा गोल है।

- वह दिखने में मोटा है।

यह थी भरत की विशेषता। इसी तरह हम किसी की भी विशेषता बता सकते हैं। इसीलिए जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे - मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, दस, दूसरा, थोड़ा, बहुत आदि।



सृजनात्मक अभिव्यक्ति

बादल के बारे में लिखो।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



क्या मैं ये कर सकता हूँ?	हाँ (✓)	नहीं (×)
1. पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ।		
2. पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकता हूँ।		
3. पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ।		
4. पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ।		

जल ही जीवन है।






पढ़ो-आनंद लो

पहेली पहचानो

मैं जल की रानी हूँ,
जीवन मेरा पानी है।
हाथ लगाओ डर जाऊँगी,
बाहर निकालो मर जाऊँगी॥



नीचे पटको ऊपर जाऊँ
ऊपर से फिर नीचे आऊँ,
आऊँ-जाऊँ, आऊँ-जाऊँ
जितना चाहो खेल खिलाऊँ।

पंख है लेकिन चिड़िया नहीं
चलता है लेकिन बढ़ता नहीं,
गर्मी भगाना इसका काम
झट बतलाओ क्या है नाम।



हम दोनों हैं पक्के मित्र
कर सकते हैं काम विचित्र
पाँच-पाँच हैं नौकर साथ
नहीं छोड़ते अपना साथ।